



Dated: 01st September, 2025

To,
Listing Department
National Stock Exchange of India
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai -400051

Symbol- TOUCHWOOD	ISIN- INE486Y01013	Series- EQ
-------------------	--------------------	------------

Sub: Disclosure under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Dear Sir/Ma'am,

With reference to the captioned subject, please find enclosed the copy of notice published in the requisite newspaper on Sunday, 31st August, 2025 intimating the completion of sending of Annual General Meeting ("AGM") Notice together with Annual Report for the Financial Year 2024-25 to all the Members and other person(s) so entitled to receive the said AGM Notice and Annual Report of the Company.

The above information will also be made available on the Company's website viz.

<https://touchwood.in/investors/>

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully

For **Touchwood Entertainment Limited**

Ritika Vats

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No.: A73991

Encl: As above

TOUCHWOOD ENTERTAINMENT LIMITED

CIN: L92199DL1997PLC088865 | ISO 9001 :2015 | UAM No. DL10F0009354

Reg. Office : Sec-B, Pkt-1, Space 301 and 302, LSC-7 Community Centre, Vasant Kunj New Delhi -110070

Corporate Office : Thapar Farm-1, Opp. Shanti Kunj Main, Sector D-3 Church Mall Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070

Contact: +91-9810108253 ; Website: www.touchwood.in E-mail: cs@touchwood.in

CUBICAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
 Regd. Office: 456, Aggarwal Metro Heights, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034
 CIN: L65993DL1990PLC040101, Ph.: 011-45563457, Email id: cubfinser@yahoo.com

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company shall be held on Friday, 29th September, 2025 at 2:00 PM through Video Conferencing/Other Audio Video Means (VC/OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 & 09/2024 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 and 19th September 2024 (respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the 35th AGM and the Annual Report for the year 2024-25 including the financial statements for the financial year ended March 31, 2025 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Depository Participants or Company in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular. In case the Members have not registered their Email id and/or not updated their bank account mandate, please follow below instructions:

For Members holding shares in physical form.
 Pursuant to Master Circular dated 7 May 2024 and Circular dated 10 June 2024 issued by SEBI, it shall be mandatory for all holders of physical securities to furnish PAN, Contact details (Postal Address with PIN and Mobile Number), Bank account details and specimen signature for their corresponding folio numbers.
 Shareholders of such folios wherein any one of the above mentioned document details are not updated, shall be eligible.
 Shareholders are requested to provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) and send scan copy of a signed request letter in form ISR-1 by email to cubfinser@yahoo.com / bestafar@gmail.com

For the Members holding shares in demat form.
 please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID). Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to cubfinser@yahoo.com / bestafar@gmail.com Or you can contact to your Depository Participant and register your Email id as per the process advised by them.

Member can join and participate in the 35th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 35th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during the 35th AGM are provided in the Notice of the 35th AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 35th AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.theCubical80.com and website of the BSE Limited i.e. www.bseindia.com

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

For Cubical Financial Services Limited
 Sd/-
 Ashwani Kumar Gupta
 (Managing Director)

ESAF SMALL FINANCE BANK
 CIN: L65990KL2016PLC045669
 Registered Office: Building No. VII/83/8, ESAF Bhavan, Thrissur-Palakkad National Highway, Mannuthy, Thrissur, Kerala, India, PIN-680 651
 E-mail: investor.relations@esafbank.com | P.h.No.-0487 7123456 | Website: www.esafbank.com

NOTICE OF 90TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that:
 1. The 90th Annual General Meeting ("AGM") of ESAF Small Finance Bank Limited (the "Bank") will be held on Wednesday, September 24, 2025 at 03:00 PM (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with Companies Act, 2013 (the "Act") read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 09/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 10/2022 and General Circular No. 11/2022 dated October 28, 2022, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular dated May 13, 2022 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), and all other applicable laws and circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Government of India and SEBI, without the physical presence of shareholders at a common venue to transact the business as set out in the Notice of the Meeting. Accordingly, the deemed venue of the meeting shall be the Registered and Corporate Office of the Bank situated at Building No. VII/83/8, ESAF Bhavan, Mannuthy, Thrissur-Palakkad National Highway, Thrissur, Kerala, PIN-680 651.

2. The Bank, in compliance with the above Circulars, has sent electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2024-25, to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Registrar & Transfer Agent of the Bank / Depository Participants(s). The notice of the 90th AGM and Annual Report for the financial year 2024-25, are also made available on the Bank's website, www.esafbank.com under Investor Relation's section, website of both the stock exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the National Securities Depository Limited ("NSDL") website, at www.evoting@nsdl.com. The dispatch of Notice of the AGM through e-mails has been completed on Saturday, August 30, 2025.

3. Shareholders can participate in the AGM only through the VC/OAVM facility, as indicated in the Notice of the Meeting. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

E-VOTING INFORMATION
 4. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and any amendments there to, the Bank will be providing e-voting facility to all its shareholders holding shares in dematerialized form to exercise their right to vote by electronic means through remote e-voting on any or all of the business specified in the Notice of the AGM and decided to engage National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide remote e-voting facility. The shareholders are advised to access the link www.evoting@nsdl.com to cast their vote.

5. Shareholders holding shares in dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., Wednesday, September 17, 2025, may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system ("remote e-voting"), the details of which are given below:

(a) Statement on businesses to be transacted by electronic voting	Business set out in Notice dated Saturday, August 30, 2025, may be transacted by electronic voting.
(b) Date of completion of sending notice of AGM	Saturday, August 30, 2025
(c) Cut-off date for determining the eligibility to vote by remote voting or e-voting at AGM	Wednesday, September 17, 2025
(d) Date and time of commencement of remote e-voting	Sunday, September 21, 2025 (09.00 A.M IST)
(e) Date and time of ending of remote e-voting	Tuesday, September 23, 2025 (05.00 PM IST)
(f) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after 05:00 PM IST on Tuesday, September 23, 2025 and once the votes on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder will not be allowed to change it subsequently.	
(g) Website details of the Bank/ Agency, where the Notice of AGM is displayed.	www.esafbank.com www.evoting@nsdl.com
(h) Contact details of the person responsible to address the grievances connected with electronic voting and technical assistance to access and participate in the meeting through VC.	Smt. Pallavi Mhatre (NSDL) by calling on: 022-4886 7000 or sending a request to evoting@nsdl.com

6. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes a shareholder post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 17, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request to help desk at evoting@nsdl.com. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting their vote. Any person who is not a shareholder / ceased to be a shareholder as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

7. Share holders may note that:
 a. The facility for e-voting will also be made available during the AGM, and those share holders present in the AGM through VC/OAVM facility, who have not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to cast their vote through the e-voting system at the AGM.
 b. The share holders who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM can also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.

c. Only persons whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.
 d. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being Wednesday, September 17, 2025, subject to cap in voting rights in terms of Section 12 (2) of Banking Regulation Act, 1949 and a Gazette Notification No. DBR, PSD, No. 1084/18-15.100/2016-17 dated July 21, 2016, read with Reserve Bank of India Guidelines on Acquisition and Holding of Shares or Voting Rights in Banking Companies dated January 16, 2023.

e. The shareholders can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before the scheduled time of the commencement of the meeting by using the remote e-voting login credentials and by following the procedure mentioned in this Notice. The facility to join through VC/OAVM will be available for share holders on first come first serve basis.

8. Comprehensive guidance for the shareholders on (a) remote e-voting before the meeting, (b) participating in the meeting through VC/OAVM, (c) e-voting during the meeting, and (d) registration of email IDs, are available in the Notice of the AGM, which can be accessed and downloaded from the Bank's website at www.esafbank.com.

9. Shareholders holding shares in dematerialized mode and had not registered their e-mail address and mobile numbers are requested to register their e-mail address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants.

10. Shareholders who are holding shares in demat mode and not registered their e-Mail ID are requested to provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16-digit beneficiary ID), Name, client master or copy of consolidated account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to investor.relations@esafbank.com for obtaining the user ID and Password for casting the vote through remote e-voting/ e-voting during the AGM. Alternatively, shareholders may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user ID and password for e-voting by providing above mentioned documents.

11. Help desk for individual shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDCL are given under:

Login type	Helpdesk details
Individual share holders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or calling at 022-4886 7000.
Individual share holders holding securities in demat mode with CDCL	Members facing any technical issue in login can contact CDCL helpdesk by sending a request to helpdesk.evoting@cdsindia.com or contacting Toll Free No. 1800 21 09911

1. Shri. Akash Binoy, Practicing Company Secretary, Kochi, has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
 2. Share holders may please note that, in terms of the aforementioned circulars, the Bank will not be sending physical copies of AGM Notice and Annual Report to the shareholders.

REGISTRATION OF EMAIL ADDRESSES WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT ("RTA") TO RECEIVE NOTICE AND ANNUAL REPORT
 To facilitate shareholders to cast their votes, attend the AGM as well as receive the Notice and Annual Report for the Financial Year 2024-25 electronically, the Bank has made special arrangement with its Registrar and Share Transfer Agent, MUFJ Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited) for registration of e-mail addresses. Eligible Shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Bank/RTA DPs are required to provide the same to MUFJ Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited), by sending a request to rtf.helpdesk@in.pmpers.mufj.com or by calling at +91 8108116767.

By order of the Board
 For ESAF Small Finance Bank Limited
 Sd/-
 Ranjith Raj P.
 Company Secretary & Compliance Officer

Date: August 31, 2025
 Place: Thrissur

NMDC Limited
 (A Government of India Enterprise)
 'Khanij' Bhavan, 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad – 500 028
 Corporate Identity Number (CIN) : L31100TG1958GO1001674

CONTRACTS DEPARTMENT

Pre - Tender Meeting Notice Dated: 31.08.2025
 NMDC Limited, A "NAVARATNA" Public Sector Company under Ministry of Steel, Govt. of India, invites experienced, reputed and competent domestic bidders to participate in pre-tender meeting on 02.09.2025, 1100 Hours for the work of **Slope protection works from Substation-1 to Substation-1A (RL706) at SP-III, Kirandul, Chhattisgarh.**

Venue of pre-tender meeting: Tata Consulting Engineers, JC 30/A Salt Lake City, Sector III, Kolkata 700106, West Bengal, India.

For obtaining the details such as brief agenda of the meeting, preliminary scope of work, time schedule, project site etc., the bidders may visit NMDC website <http://www.nmdc.co.in>.

Further, for any queries, the bidders may also contact the following officials directly or through e-mail:

- Shri Sowmen Bisai email: sbisai@tataconsultingengineers.com
- Shri Arindam Chatterjee, AGM (Contracts); e-mail: arindam210990@nmdc.co.in

For and on behalf of NMDC Ltd.
 Executive Director (Works)

MOLD-TEK PACKAGING LIMITED
 CIN: L21022TG1997PLC026542
 Regd. Off: 8-2-293/82/A/700, Ground Floor, Road No 36, Jubilee Hills, Hyderabad-500033, Telangana, India. Ph No: 040-40300300, Fax No:040-40300328
 Email: cs@moldteckpackaging.com; ir@moldteckpackaging.com
 Website: <https://www.moldteckpackaging.com/>

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE/OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 28th (Twenty-Eighth) Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Mold-Tek Packaging Limited (the Company) will be held on Tuesday, September 30, 2025 at 10:00 A.M. IST through Video Conference or Other Audio Visual Means (VC/OAVM), to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM dated August 29, 2025.

The AGM will be held through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and applicable rules made thereunder, read with circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest circular being Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) and other applicable circulars issued in this regard (collectively referred as Circulars) permitting the holding of AGM through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue.

In Compliance with the above Circulars and in accordance with the provisions of Companies Act, 2013, the Notice of the 28th AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2024-25 will be sent only by email to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants (DP)/Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. Kfin Technologies Limited. A letter providing the weblink and QR code for accessing the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent to those members who have not registered their email address with the Company/DP/RTA.

Members who are holding shares in electronic form and have not registered their email addresses are requested to contact their DP and register their addresses as per the procedure prescribed by their DP. Further, members who are holding shares in physical form are requested to submit duly filled and signed ISR-1 along with self-attested copy of the PAN card and other relevant documents as mandated by SEBI vide its circular dated March 16, 2023 to the Company's RTA viz. Kfin Technologies Limited by sending an email at enward.ris@kfinetech.com on or before 05:00 PM IST on September 03, 2025.

Members may note that the Notice of 28th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be available on the Company's website at www.moldteckpackaging.com and the website of the Stock Exchanges i.e BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice of 28th AGM will also be available on the website of our RTA i.e. Kfin Technologies Limited (Kfin) at <https://evoting.kfinetech.com>.

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses as set out in the AGM notice through remote e-voting and e-voting during the AGM. The detailed procedure of remote e-voting and e-voting during the AGM by members holding shares in Physical form and members who have not registered their email id with the Company will be provided in the AGM notice.

The members may please note that the Board of Directors of the Company at its meeting held on July 28, 2025 recommended a Final Dividend of Rs. 2/- per Equity Share of Rs. 5/- each (i.e. at 40%) for the Financial Year ended March 31, 2025 subject to the approval of the Members of the Company at 28th AGM. The Final Dividend, if approved, will be paid to the members whose name appears in the Register of Members as on Tuesday, September 23, 2025 (Record Date).

For receiving dividend directly in bank accounts, Members are requested to register/update their complete bank details with their DPs (where shares are held in dematerialized form) and the Company's RTA (where the shares are held in Physical form) at enward.ris@kfinetech.com by providing the relevant details/documents as prescribed in form ISR-1.

For Mold-Tek Packaging Limited
 Sd/-
 Harshita Suresh Chandnani
 Company Secretary & Compliance Officer

Date: 30.08.2025
 Place: Hyderabad

TOUCHWOOD ENTERTAINMENT LIMITED
 CIN: L92199DL1997PLC088865
 Regd. Off.: Sec-B, PKT-1, Space No-301 and 302 LSC-7, Community Centre, Vasant Kunj, Sector B, New Delhi, South West Delhi- 110070
 Contact No.: +91 9810108253
 Email: cs@touchwood.in Website: www.touchwood.in

NOTICE

1. Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting ("AGM") of Touchwood Entertainment Limited (the "Company") is scheduled to be held on Friday, 26th September, 2025 at 4 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ("Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), Secretarial Standard-2 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), without the physical presence of the members to transact the Ordinary and Special Business as set out in the AGM Notice.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the notice of the AGM along with Annual Report for the financial year 2024-2025 ("Annual Report") has been sent through e-mail to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository") and Transfer Agent, Skyline Financial Services Private Limited. The emailing of all Notices along with the Annual Report has been completed on Saturday, August 30, 2025.

2. In terms of Section 108 of the Act, read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide its members with the remote e-voting facility to cast their vote electronically on the Resolution(s) mentioned in the AGM notice using electronic voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). In case, the member is unable to cast his/her vote on the facility of electronic voting platform provided by NSDL, then they shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Board has appointed Aditya Vyas & Company, Practicing Company Secretaries, as scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner. The members may note the following:

- Members holding shares as on the cut-off date i.e., 19th September, 2025 may cast their vote electronically on business as set out in AGM Notice through such remote e-voting.
- Any person, who acquires shares and become a member of the Company after sending the Notice and holding shares as on the cutoff date i.e., 19th September, 2025, may obtain the login ID and password by sending an email to cs@touchwood.in by mentioning his/her folio number/DP ID and client ID number. However, if you are already registered with National Securities Depository Limited (NSDL) for e-voting, then you can use your existing User ID and password for casting your vote.
- The remote e-voting period begins on 09:00 A.M. (IST), on Tuesday, 23rd September, 2025 and will end at 05:00 P.M. (IST) on Thursday, 25th September, 2025. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- Any person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depository as on cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting during the AGM.
- The members who have already cast their vote by remote e-voting, prior to the AGM will be eligible to attend/ participate in the AGM through the NSDL e-Voting system, but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.
- Members may note that the Notice of Annual General Meeting and the Annual Report for FY 2024-2025 are also available on the Company's website www.touchwood.in as well as on the website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL at the following toll-free no.: 1800-222-990.
- The results on resolutions shall be declared not later than 2 working days from the conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be made available on the website of the Company at www.touchwood.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and the same shall be simultaneously communicated to National Stock Exchange of India Limited.

3. **BOOK CLOSURE:** Pursuant to Section 91 and other applicable provisions of the Act and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 20th September, 2025 to Friday, 26th September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of 28th Annual General Meeting of the Company.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through Remote e-voting or through e-voting during the AGM.

For and on Behalf of Board of Directors
 Touchwood Entertainment Limited
 Sd/-
 Ritika Vats
 Company Secretary & Compliance Officer

Place : New Delhi
 Date : 07th August, 2025

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
HARSHITHA HOSPITALS PRIVATE LIMITED
 OPERATING IN HEALTHCARE SERVICES (HOSPITAL AT MADURAI, TAMIL NADU, INDIA)
 (Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/ LLP No.	HARSHITHA HOSPITALS PRIVATE LIMITED CIN : U85100TN2009PTC071421 PAN : AACCJH639A
2. Address of the registered office	128/1-A, Ayanpapakudi Village, Aruppukottai Main Road, Avaniyapuram, Madurai - 625012 Tamil Nadu
3. URL of website	Not Applicable
4. Details of place where majority of fixed assets are located	Hospital Premises situated at No. 128/1-A, Ayanpapakudi Village, Aruppukottai Main Road, Avaniyapuram, Madurai - 625012
5. Installed capacity of main products/ services	100 Bed Hospital as informed by the management
6. Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	As per Audited financial Statement : Revenue Rs 35.13 Crores in 2022-23 Rs 35.79 Crores in 2021-22 Rs 28.40 Crores in 2020-21
7. Number of employees/ workmen	None as of date as informed by the management
8. Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	The information can be obtained from Resolution Professional through email circphpl1@gmail.com List of Creditors (FC and OC) can be viewed from the below link : https://ibbi.gov.in/en/claims/claim-process/U85100TN2009PTC071421 The information can be obtained from Resolution Professional through email circphpl1@gmail.com
9. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	15.09.2025
10. Last date for receipt of expression of interest	25.09.2025
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	30.09.2025
12. Last date for submission of objections to provisional list	30.09.2025
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	10.10.2025
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	15.10.2025
15. Last date for submission of resolution plans	20.11.2025
16. Process email id to submit Expression of Interest	circphpl1@gmail.com
17. Details of the corporate debtor's registration status as MSME	Registered under MSME UDYAM Reg. No.: UDYAM-TN-12-0000639

Anish Agarwal | Resolution Professional
 For Harshitha Hospitals Private Limited (Under CIRP)
 Regn. No. : IBBI/PA-001/IP-P-01497/2018-19/12256
 Flat No. C-1305 Samudraha Nandanam , Hoodi, Graphite India Road, Bengaluru, Karnataka- 560 048 Mobile : 9798571555 |
 Mail id : circphpl1@gmail.com
 Sunday, 31st August, 2025

DCM Nouvelle Limited
 CIN: L17309DL2016PLC307204
 Regd. Office: 407, Vikrant Tower 4, Rajendra Place, Delhi-110008
 Email ID: info@dcnmvl.com | Website: www.dcnmvl.com

INFORMATION REGARDING 90TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 90th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of DCM Nouvelle Limited ("the Company") will be held on Friday, September 26, 2025 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility, to transact the businesses as set out in the Notice of the 90th AGM of the Company.

The AGM will be held through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and applicable Rules made there under read with Circulars dated September 19, 2024, May 5, 2020 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) from time to time, permitting the holding of AGM through VC/OAVM without physical presence of Members at a common venue.

In accordance with aforesaid MCA Circulars and Securities and Exchange Board of India Circular dated October 3, 2024, electronic copy of the Notice of 90th AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent to all the Members, whose e-mail address are registered with the Company/Depository Participant(s).

If you have not registered/ updated your email address with the Company/ Depository Participant(s), please follow below instructions for registering/ updating the same:

Members holding shares

शाकुंभरी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड

CIN: L21012UP1986PLC007671

पंजीकृत कार्यालय: 4.5 किमी. भीपा रोड, मुज़फ़्फ़रनगर, उत्तर प्रदेश- 251001

फ़ोन नंबर: 7895512368, | ईमेल: shakumbhripulp@gmail.com | वेबसाइट: www.shakumbhripulp.com

वार्षिक आम बैठक की सूचना, वुक स्तोज़र और ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्व द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की 37^{वाँ} वार्षिक आम बैठक शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को प्रातः 11:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 4.5 किलोमीटर, भीपा रोड, मुज़फ़्फ़रनगर, उत्तर प्रदेश- 251001 में आयोजित की जाएगी, इस बैठक में उक्त सूचना में उल्लिखित कार्य निष्पादित किए जाएंगे, यह सूचना शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से ई-मेल के माध्यम से पहले ही भेजी जा चुकी है, यदि उनका ई-मेल पता डिजिटल/रिजिस्टर एवं ट्रान्स्फर एजेंट के पास पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता), विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 36 के अनुसार, जिन सदस्यों ने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है, उन्हें वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 24-25 की वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए एवं वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र भी भेजा जा रहा है। 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.shakumbhripulp.com, स्कैन एक्सचेंज की वेबसाइट www.mse.in और www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना भेजने का कार्य 30 अगस्त, 2025 को पूरा हो चुका है।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है और कंपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से अपना कारोबार चला सकती है। ई-वोटिंग सुविधा www.evotingindia.com लिंक पर उपलब्ध होगी। ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी और शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (दोनों दिन सम्मिलित) समाप्त होगी। शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिए जाने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं है। ई-वोटिंग के लिए अंतिम तिथि शनिवार, 20 सितंबर 2025 होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग संबंधी निर्देशों के लिए शेयरधारक कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में दिए गए निर्देशों को देख सकते हैं।

को व्यक्ति नोटिस भेजने के बाद शेयर प्राप्त करते हैं और कंपनी के सदस्य बनते हैं और जो कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, 20 सितंबर 2025 तक पत्र शेयरधारक हैं, वे तानिदा आईटी एंड पासवर्ड प्राप्त करते हैं और कंपनी के लिंक श्री रवी से (011-40450193) या investors@skylinetra.com पर संपर्क कर सकते हैं।

26 सितंबर, 2025 को शाम 5 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। वार्षिक आम बैठक के दौरान भी मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और वार्षिक आम बैठक में उपस्थित वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, वार्षिक आम बैठक में मतपत्र से मतदान करने के पत्र होंगे। केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों तथा कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अद्यतन न करने वाले सदस्यों के लिए एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है।

एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप श्री रवि, स्कूडलाइंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से investors@skylinetra.com पर या श्री राकेश दत्ता, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए गिम, 25वीं मील, मेरठान पंचसूचक, मफतलात मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, जोअर परेत (पूर्व), मुंबई - 400013 पर संपर्क कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdsindia.in पर ईमेल भेज सकते हैं या 022-23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें कंपनी की 37^{वाँ} वार्षिक आम बैठक के लिए रविवार, 21 सितंबर 2025 से शनिवार, 27 सितंबर 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते शाकुंभरी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड
हस्ता./-
(आपुनी गुदा)
कंपनी सचिव

दिनांक: 30.08.2025
स्थान: मुज़फ़्फ़रनगर

सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नाम सूचना

पंजीकृत कार्यालय : "विजय", द्वितीय तल, नई आईड रोड, जवाहरपुर, अहमदाबाद, गुजरात - 380009, ग्राहक कवरेज : एक्सीडेंट कम्पेंसेशन सर्विसेज लिमिटेड, ई-145, उत्तर अंग, लक्ष्मण मंदिर जगह के सामने, श्री-लक्ष्मी, जयपुर, राजस्थान 302001

आप, निम्न वर्णित ऋणकर्ता, सह-ऋणकर्तागणों तथा गारंटरगणों ने अपनी अचल संपत्तियाँ (प्रतिभूतियों) को बंधक रखकर एक्सीडी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण(ऋणवर्तियों / वित्तीय सुविधाएं) प्राप्त की जो तथा उनका प्रतिगुप्तन करने में पूरा कर चुके हैं। आगामी चुकों के परिणामस्वरूप, आपके ऋण को अधिभारित करने (अनफुलफिल के रूप में) वर्गीकृत कर दिया गया था। इसलिये अब, इसके उपरान्त, कंपनी ने वित्तीय प्रविष्टि-वस्तुओं के प्रतिभूतिकावचन एवं पुनर्विनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रदान अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत नाम सूचना निम्नित की है, जिसकी प्रविष्टि-वस्तु को, आगामी सूचना से अलग करने के वैधानिक प्रक्रिया-माध्यम से तथा उत्तराधिकार, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निम्नलिखित 2022 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार वह निम्नानुसार प्रकाशित किया जा रहा है।

ऋणकर्ताओं, सह-ऋणकर्ताओं, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत नाम सूचना तिथि, सूचना के अंतर्गत अर्थावर्धित राशि, एक्सीडेंट तिथि तथा प्रतिभूतियों के विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं :

- ऋणकर्ता तथा सह-ऋणकर्ताओं के नाम :** 1. श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी, द्वितीय 146 मुरली चार व्यास नगर बीकानेर बीकानेर -334004 राजस्थान और इसके अलावा- दुकान नंबर एए 5 औद्योगिक विकास केंद्र खारा बीकानेर बीकानेर में स्थित है हो-334001 2. सरला देवी शर्मा, द्वितीय डी 146 मौसम विभाग के पीछे मुरलीचर व्यास नगर बीकानेर बीकानेर -334004 राजस्थान, 3. कमल किशोर शर्मा, द्वितीय डी 146 मौसम विभाग के पीछे मुरलीचर व्यास नगर बंगलानगर बीकानेर-334004 राजस्थान। ऋण खाता संख्या: 62282630- ऋण राशि: ₹. 93,95,854/- (रुपये तिरानवे लाख पंचानवे हजार आठ सी चीवन मात्र) मांग सूचना दिनांक: 16.08.2025, दवाकृत राशि: ₹. 97,61,883.37/- (रुपये सत्तानवे लाख इक्कठ हजार पौंच सी तिरासी तथा सौतीस पैसे मात्र) 11.08.2025 तक और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संचिदालक व्याज साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। एनपीए तिथि: 02.08.2025- प्रतिभूतियों की अनुसू. 22 वीं मीटर है। प्रतिभूतियों की अनुसूची 11.- पी. नं. 11 की 146 मुरलीचर व्यास नगर, विस्तार योजना बीकानेर- 334001 में स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 1225 वर्ग फुट है।
- ऋणकर्ता तथा सह-ऋणकर्ताओं के नाम :** 1. महेश जनरल एंड किराना स्टोर, पुलिस लाइन पुलिस लाइन बारां रोड कोटा 0 बारां रोड कोटा कोटा-324001 राजस्थान और इसके अलावा - मकान पट्टा संख्या-341, योजना नयागांव कोटा कोटा-324001, 2. विशेष पुत्र अशोक कुमार, महेश जनरल एंड किराना स्टोर पुलिस लाइन बारां रोड कोटा बारां रोड कोटा जो कोटा जिला कोटा कोटा-324001 राजस्थान, 3. अशोक कुमार, महेश जनरल एंड किराना स्टोर पुलिस लाइन बारां रोड कोटा बारां रोड कोटा जो कोटा जिला कोटा कोटा-324001 राजस्थान, 4. मनु दरियानी, महेश जनरल एंड किराना स्टोर पुलिस लाइन बारां रोड कोटा बारां रोड कोटा जो कोटा जिला कोटा कोटा-324001 राजस्थान। ऋण खाता संख्या: 48207800- ऋण राशि: ₹. 55,00,000/- (पचपन लाख रुपये मात्र) मांग सूचना दिनांक: 16.08.2025, दवाकृत राशि: 11.08.2025 तक ₹. 55,78,471.36/- (रुपये पचपन लाख अष्टहजार हजार चार सी इक्कठर तथा छत्तीस पैसे मात्र) और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संचिदालक व्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। एनपीए दिनांक: 02.08.2025- प्रतिभूतियों की अनुसूची 1: पट्टा संख्या-341, योजना नयागांव कोटा में मकान का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 211.38 वर्ग मीटर है। उत्तर-रोड, दक्षिण-रोड। पूर्व- कन्हैया लाल का मकान, परिधम- अमृत कोर का मकान।
- ऋणकर्ता तथा सह-ऋणकर्ताओं के नाम :** 1. द फैशन हब, सेंट एन स्कूल के सामने बीकानेर, मुफा प्रसाद रोड बीकानेर बीक. नंर एचओ-334001 राजस्थान, और इसके अलावा - सर्वोदय बस्ती स्थित चर, बीकानेर बीकानेर एचओ-334001, 2. राधिका बानो वाई नंबर 60 सेंट एन स्कूल के सामने राजीव नगर बीकानेर बीकानेर राजस्थान- 334004, 3. रोशन अली, 484 कपेय वाई नंबर 60 सेंट एन स्कूल के पीछे राजीव नगर बीकानेर बीकानेर राजस्थान- 334004, ऋण खाता संख्या: 46791221 - ऋण राशि: ₹. 35,00,00/- (रुपये बीस लाख मात्र), मांग सूचना दिनांक: 16.08.2025, दवाकृत राशि: 11.08.2025 तक ₹. 35,43,030. 93/- (रुपये बीस लाख बीतासी हजार तीस तथा तिरानवे पैसे मात्र) और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक वसूली तक भावी संचिदालक व्याज, एनपीए दिनांक: 02.08.2025- प्रतिभूतियों की अनुसूची 1: सर्वोदय बस्ती, बीकानेर में स्थित मकान का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका मा 285 वर्ग मी. है। (इसके बाद उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित।) सीमाएं - पूर्व- जमाल का घर, परिधम- हेंदर का घर, उत्तर- फाख का घर, दक्षिण - रास्ता।
- ऋणकर्ता तथा सह-ऋणकर्ताओं के नाम :** 1. मैसर्स इमरान टेलीकॉम, वाई नं. 13 मकान नं. 264 मेन मार्केट गली नं. 2 रामपुरा बस्ती कामसर रोड श्री गुरु गिरास मंदिर लाल बीकानेर - 334004 राजस्थान, 2. बेबी नानी, पानी स्टैंड के पास सर्वोदय बस्ती बीकानेर बीक. नंर-334004 राजस्थान, 3. शहादुख खान, पानी स्टैंड के पास सर्वोदय बस्ती बीकानेर बीकानेर-334004 राजस्थान। ऋण खाता संख्या: 52336254, ऋण राशि: ₹. 34,30,000/- (रुपये बीस लाख बीतासी हजार मात्र) ऋण खाता संख्या: 42026965- ऋण राशि: ₹. 45,00,000/- (रुपये बीतासीस लाख मात्र) मांग सूचना तिथि: 16.08.2025, दवाकृत राशि: ₹. 7893101.53 (रुपये अष्टहजर लाख तिरानवे हजार एक सी एक तथा तिरपन पैसे मात्र) 11.08.2025 तक और वास्तविक वसूली तक भावी संचिदालक व्याज, साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि, एनपीए तिथि: 02-08-2025, प्रतिभूतियों की अनुसूची 1:- सर्वोदय बस्ती, बीकानेर में स्थित सभी टुकड़े और पार्सल संपत्ति मकान, जिसका क्षेत्रफल 1302 वर्ग फीट है। सीमा - पूर्व - चांद बानो का घर, परिधम - अनवर का घर, उत्तर - नाशिर का घर, दक्षिण - रास्ता।
- ऋणकर्ता तथा सह-ऋणकर्ताओं के नाम :** 1. सिद्धि विनायक कॉन्सोर्टिक वाई नंबर 19 पुराना रामदेव मंदिर के पास बंगला नगर पुराल रोड बीकानेर बीकानेर-334004 राजस्थान और बंगला नगर बीकानेर में स्थित मकान बीकानेर-334004 2. छोटा देवी सुधार हनुमान मंदिर के पीछे पुराल रोड बंगलानगर बीकानेर-334004 राजस्थान 3. मुकेश सुधार पुराने गंगादेवी कॉलेज के पीछे पुराल रोड बंगला ए नगर बीकानेर-334004 राजस्थान। ऋण खाता संख्या: 41736327, ऋण राशि: ₹. 29,40,000/- (रुपये उत्तीस लाख बीतासी हजार मात्र) मांग सूचना दिनांक: 16.08.2025, दवाकृत राशि: 11.08.2025 तक ₹. 29,41470.17/- (रुपये उत्तीस लाख इक्कठा. लिस हजार चार सी सत्तर तथा सत्रह पैसे मात्र) और वास्तविक वसूली तक भावी संचिदालक व्याज, साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि, एनपीए तिथि: 02-08-2025, प्रतिभूतियों की अनुसूची 1:- बंगला नगर, बीकानेर में स्थित मकान का पुरा पूरा टुकड़ा, जिसका मा 82.76 वर्ग मी है। संपत्ति छोटा देवी सुधार के नाम पर पंजीकृत है, पंजीकृत लीज डीड संख्या 1385 के अनुसार, जिसे सुभाईटी बीकानेर द्वारा संबंधित उप पंजीकृत के समझ दस्तावेज संख्या के अनुसार से, 202303058109171, पुरस्कृत संख्या 1, खंड संख्या 1957, प्लट संख्या 50 दिनांक 17-10-2023 के द्वारा निमात्रित किया गया है। संपत्ति की सीमा हर प्रकार है- उत्तर- श्री शुधुर का घर, पूर्व- रास्ता 20 फीट चौड़ा, परिधम- श्री ओम पुरोहित का घर, दक्षिण- श्री गुरुनारा का घर।
- ऋणकर्ता तथा सह-ऋणकर्ताओं के नाम :** 1. सुलेमान मुरसलमान, मेस्ताब की ताल भीलवाड़ा जुनावासर भीलवाड़ा भीलवाड़ा हो-311001 राजस्थान, और इसके अलावा- पट्टा संख्या 6391 स्थित संपत्ति वाई संख्या 45 (अरजी नंबर 1862) जुनावासर भीलवाड़ा भीलवाड़ा हो-311001 राजस्थान, 3. इमरान मोहम्मद, मेस्ताब की ताल भीलवाड़ा जुनावासर भीलवाड़ा हो-311001 राजस्थान, 4. मोहम्मद रफीक, हदवात की ताल भीलवाड़ा जुनावासर भीलवाड़ा भीलवाड़ा हो-311001 राजस्थान। ऋण खाता संख्या: 28356537, ऋण राशि: ₹. 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र) मांग सूचना दिनांक: 16.08.2025, दवाकृत राशि: 11.08.2025 तक ₹. 20,16001.44 -/- (रुपये बीस लाख सत्तर हजार एक तथा बीतासीस पैसे मात्र) और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक वसूली तक भावी संचिदालक व्याज, एनपीए दिनांक: 02-08-2025, सुख्या का विवरण: पट्टा संख्या 6391 पर स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, वाई संख्या 45 (अरजी संख्या 1862) जुनावासर भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित, क्षेत्रफल 689.00 वर्ग फुट। सीमा - उत्तर- गफफार भाई काजी की संपत्ति, दक्षिण- मोहम्मद यूसूफकी संपत्ति, पूर्व- अफजल शाह की संपत्ति, परिधम- रोड और चौक।
- ऋणकर्ता तथा सह-ऋणकर्ताओं के नाम :** 1. सुष्टि क्रिश्चन, एन 192 सुष्टि क्रिश्चन रोको अपरेल पार्क जगतपुरा जयपुर जयपुर-302017 राजस्थान, और इसके अलावा- प्लेट नंबर 110 5वीं मंजिल पर प्लॉट नंबर 222 स्क्रीम दादू रयाल नगर सीडी ब्लॉक नाम कल्याण नगर सांगानेर जयपुर-302017, 2. गिरधारी सिंह, प्लॉट नंबर 31 राम कुटीर सांगानेर नरसिंगपुरा रिसर्चा जगतपुरा जयपुर जयपुर-302017 राजस्थान, 3. योगेश सिंह, प्लॉट नंबर 31 राम कुटीर सांगानेर नरसिंगपुरा रिसर्चा जगतपुरा जयपुर जयपुर-302017राजस्थान, 4. करीता गुजर, प्लॉट नंबर 31 राम कुटीर में सांगानेर नरसिंगपुरा रिसर्चा जगतपुरा जयपुर जयपुर-302017 राजस्थान। ऋण खाता संख्या: 27593615, ऋण राशि: ₹. 50,00,000/- (केवल पचास लाख रुपये) मांग सूचना दिनांक: 16.08.2025, दवाकृत राशि: 11.08.2025 तक ₹. 50,01498.17/- (रुपये पचास लाख एक हजार चार सी अठ्ठाने तथा सत्रह पैसे मात्र) और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक वसूली तक भविष्य का संचिदालक व्याज, एनपीए दिनांक: 02-08-2025, प्रतिभूतियों की अनुसूची 1:- प्लॉट नंबर -222, स्क्रीम दादू रयाल नगर, सी डी ब्लॉक, गांव कल्याणपुरा तह. सांगानेर, जयपुर में 5 डी मंजिल पर प्लेट नंबर -110 का पूरा टुकड़ा और पार्सल, 1600 वर्ग फीट कीम माप। (उक्त संपत्ति के उक्त भाग के रूप में संदर्भित) सीा - उत्तर- प्लॉट संख्या-223, दक्षिण- प्लॉट संख्या-221, पूर्व- रोड, परिधम- प्लॉट संख्या-225
- ऋणकर्ता तथा सह-ऋणकर्ताओं के नाम :** 1. हिमांशी करमचंदानी, 2/604 गर मालवीय नगर जयपुर, मालवीय नगर जयपुर-302017 राजस्थान, 2. मीरा करमचंदानी, 2/604 गर मालवीय नगर जयपुर, मालवीय नगर जयपुर-302017 राजस्थान, 3. दीपक करमचंदानी, 2/604 गर मालवीय नगर जयपुर, मालवीय नगर राजस्थान जयपुर-302017 राजस्थान। ऋण खाता संख्या: 16168614, ऋण राशि: ₹. 36,00,000/- (केवल छत्तीस लाख रुपये) मांग सूचना दिनांक: 16.08.2025, दवाकृत राशि: ₹. 3535385. 69/- (रुपये बीस लाख बीतासी हजार तीस सी विघासी तथा उत्तराहर पैसे मात्र) 11.08.2025 तक और वास्तविक वसूली तक भावी संचिदालक व्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि, एनपीए तिथि: 02-08-2025, प्रतिभूतियों की अनुसूची 1:- मकान संख्या 02/604, ब्लॉक संख्या 2, स्क्रीम मालवीय नगर, जयपुर (राजस्थान) का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसकी मा 90.00 वर्ग मीटर है। सीमाएं - पूर्व - पी. नं. 2/605, परिधम- पी. नं. 2/603, उत्तर- रोड, दक्षिण- 2/635
- ऋणकर्ता तथा सह-ऋणकर्ताओं के नाम :** 1. हार्द वीर, रेबू जी की गली बीकानेर हो-334001 राजस्थान और साथ ही सीडी संख्या सी-180 का पूर्वी भाग (प्लॉट संख्या सी-180 माप) व बल्लम गार्डन स्थित बाड़ी की ओर बीकानेर-334002 2. सैयम सुखेजा सी-180 बल्लम गार्डन पवनपुत्री बीकानेर पवनपुत्री-334003 राजस्थान 3. गिरीश कुमार सुखेजा सी-180 बल्लम गार्डन पवनपुत्री बीकानेर पवनपुत्री- 334003 राजस्थान 4. कमल कुमार सुखेजा सी-180 गणेश फर्नीचर के पास बल्लम गार्डन बीकानेर पवनपुत्री-334003 राजस्थान 5. सुधा सुखेजा सी-180 बल्लम गार्डन पवन पुत्री बीकानेर ऋण खाता संख्या: 44468128, ऋण राशि: ₹. 38,00,000 -/- (रुपये अड़तीस लाख मात्र) मांग सूचना दिनांक: 16.08.2025, दवाकृत राशि: 11.08.2025 तक ₹. 38,53173.57/- (रुपये अड़तीस लाख तिरानवे हजार एक तथा सत्तान पचा सत्तान पैसे मात्र) और वास्तविक वसूली तक भविष्य का संचिदालक व्याज, साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि, एनपीए दिनांक: 02-08-2025, प्रतिभूतियों की अनुसूची 1:- प्लॉट संख्या सी-180 (प्लॉट संख्या सी-180 माप) के पूर्वी भाग का वह समस्त टुकड़ा और पार्सल, जो बल्लम गार्डन, शिव बाड़ी, बीकानेर की ओर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1500.75 वर्ग फीट है।

अतः आप उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं तथा गारंटियों को, इस सूचना के 60 दिनों के अंदर यहां इसमें उल्लिखित अंकितानुसार भावी व्याज के साथ परप्रीतिगत मांगकृत राशि का, पूर्ण भुगतान करने के लिये निम्नलिखित करार किया जाता है, भुगतान करने में फिल होने पर अधोस्तरकारी उपरोक्त राशिगत प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिये अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। (उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को कृपया ध्यान देने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के प्रावधानों की तथा आकृष्ट प्रतिभूतियों की) क्रमशः ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार, आप हमारी प्रतिभूति के बिना उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को बिक्री, पट्टा के माध्यम से या अन्यथा उपरोक्त संर्भित प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने से प्रतिषेधित है तथा अधिनियम की धारा 13(13) की कोई भी अनुपालनहीनता, उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है। किसी भी प्रश्न के लिये कृपया श्री विकास आनंद से: (971100384) पर संपर्क करें।

स्थान : जयपुर, दिनांक : 31-08-2025

हस्ता./- कृते एक्सीडी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी

<div> <div> <div>equitas</div> <div>हविचटाल एमॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड</div> <div>(पूर्व में हविचटाल फाइनैंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)</div> <div>पंजीकृत कार्यालय: नंबर 769, एंडरस प्लान, चौकी मॉडल, केन- 11, अमरा सहाय, वेबसाई - 600302</div> </div> <div> <div>कच्चा सूचना (डियम 8(1) के अंतर्गत - अवल संपर्क के लिए)</div> <div> </div> </div> </div>				
क्र.	उधारकर्ता (ओं) / ऋा त्राम	सुरक्षित संपत्ति (अवल संपर्क) का विवरण	मांग सूचना के अनुसार तिथि और घडि	क्या वेतों की तिथि
1.	धारा - औयल ऋण संख्या -SEKITAL0291008 उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता - श्री/ श्रीमती संचित कुमार श्री/ श्रीमती सीतेन सिंह श्री/ श्रीमती जीतेन कुमार श्री/ श्रीमती गजे सिंह श्री/ श्रीमती फूलवति श्री/ श्रीमती नमाल सिंह	पेर-मुक्ति संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल अवासीय संपत्ति है, जिसका माप 11.5 मरते है, जो भूमि का 1/4 हिस्सा है, जिसका माप 2 कनाल 6 मरते है, जो खेड संख्या 47, छातीरी संख्या 82, आगाय में शामिल है। - जिला संख्या 23 / 24(2-6) जो चार- चार- रमन पुत्र बन्ना का मकान, दक्षिण- छाती प्लॉट, पूर्व- फुल्ल पुत्र सिंह का मकान, परिधम- गली से दिया है, जो राम जुलानी खेडा, लहरील कलावत, जिला केवल, हरियाणा की राजस्व संघान में स्थित है, इसके सभी अनुत्पन्नक मूल पंजीकृत हस्तांतरण विवरण संख्या 341 दिनांक 13.05. 2019 के साथ प्लॉट न्यूटेलन संख्या 888 दिनांक 15.05.2019 और राम जुलानी खेड के वर्ष 2017-2018 की जमाबंदी और मूल पंजीकृत रिपॉर्ट दिनांक 14.07.2020 को हस्ताक विपत्ति द्वारा जारी और लक्ष्मीवदार कलावत द्वारा प्रविष्टिस्वाक्रीत उत्तर की ओर एच/ओ बरखन और पी/ओ अरुणा (50.75 फीट. 51.5 फीट. दक्षिण की ओर पी/ओ सायु और पी/ओ सुवि सिंह (47.25 फीट. 51.5 फीट.) पूर्व की ओर: एच/ओ फुल्ल पुत्र सिंह (49 फीट.) परिधम की ओर: स्ट्रीट (15.5 फीट + 19 फीट 14.5 फीट)	27/05/2025 और वरुडे 728714/-	29/08/2025
				29/08/2025

दिनांक - 31.08.2025, एमाल - केवल, हरियाणा	अधिकृत अधिकारी, हविचटाल एमॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड
---	---

वर्सुनी इंडिया होम सॉल्यूशंस लिमिटेड

(पूर्व में फिलिप कॉर्पोरेशन अत्यावर्धित इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

पंजीकृत कार्यालय: वेगस, पोएर आर्बोडिये, 904, 9वीं मंजिल, 4ए, आनंदीय टावर टाकुर साखी, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700016, भारत

कॉर्पोरेट कार्यालय: सुगिट संख्या 401, चौथी मंजिल, टावर-3, भारती वर्ल्डवर्क, मेदास रोड, सेक्टर 68, गुरुग्राम, हरियाणा - 122018

ईमेल आईडी: corpsec@versuni.com **फोन** : +91 124-6560600, **साईटआईडी** : U29308WB20P2LC238116, **वेबसाइट** : www.domesticappliances.philips.co.in

वर्सुनी इंडिया होम सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयरधारकों को सार्वजनिक सूचना जारी की गई:

वर्सुनी इंडिया होम सॉल्यूशंस लिमिटेड ("वर्सुनी इंडिया") के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्सुनी इंडिया अपने शेयरधारकों के सभी और पूर्ण सारक विवरण सदस्यों के लिए अपने कॉर्पोरेट रिपोर्टों को अद्यतन करना चाहता है। कृपया ध्यान दें कि वर्सुनी इंडिया के सारकों में और पूर्व/वही जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में, शेयरधारकों को वर्सुनी इंडिया से समय पर या बिनामूल भी शेयरधारक संचार प्राप्त नहीं हो पाएंगे।

निम्नलिखित शेयरधारकों को कृपया ध्यान देना चाहिए कि वर्सुनी इंडिया के पास रिपोर्टों में कोई सारक विवरण उपलब्ध नहीं है, और तदनुसार उन्हें क्याचरीज (पीके रिट) पर तोकेंगे। अपनी सही और पूर्ण वर्तमान सारक जानकारी वर्सुनी इंडिया के साथ साझा करने चाहिए:

क्र.सं.	नाम	फोलियो संख्या
1.	अपर्णा पारिज	POA0011159
2.	जी रघुपति	POA0011160
3.	इंद्रजीत सिंह	POA0011161
4.	मीनारन अरविंदकुमार पटेल	POA0011162
5.	प्रवीर कुमार दत्ता	POA0011163
6.	सोनाली देव	POA0011164
7.	सुधी सायलया	POA0011165
8.	रोजपलत अंधालाल शाह	POA0011166
9.	राखीन रोहितेन गुमारीवाल	POA0011167
10.	जुवेदा ए बरसाई	POA0011168
11.	एन रामदास भ्र्मु	POA0011169
12.	इन ट्रान	POA0011171

कंपनी के उपर्युक्त शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 15 सितंबर, 2025 तक, व्यक्तिगत रूप से, ई-मेल या पंजीकृत डाक द्वारा, अपना वर्तमान सारक विवरण, जिसमें शामिल है: (i) पूरा डाक पता (ii) टेलीफोन नंबर (थ्रूडायलिंग कोड के साथ), (iii) ई-मेल पता, (iv) स्थायी खाता नंबर, (v) आधार कार्ड नंबर या कोई अन्य वर्तमान पते का प्रमाण, निम्नलिखित को प्रदान करें, ताकि कंपनी के रिपोर्टों को विश्वसनीय अद्यतन किया जा सके और भविष्य के सभी संचार प्रभावी ढंग से और बिना देरी के वितरित किए जा सकें।

ध्यान दें: अरुणा अरलसिंह

पता: सुगिट संख्या 401, वर्ल्डवर्क 3, चौथी मंजिल, सेक्टर - 68, गुरुग्राम, हरियाणा - 122018, भारत

ईमेल आईडी: corpsec@versuni.com

जिन शेयरधारकों ने अभी तक वर्सुनी इंडिया के रिपोर्टों में अपनी सारक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है या अपडेट करना चाहते हैं, वे भी ऊपर बताई गई प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा करने का विवरण चुन सकते हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज भी साथ लाएं, जिन्हें पट्टान, शेयरधारिता और पते का प्रमाण शामिल है। कृपया ध्यान दें कि